



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1159]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2015/ ज्येष्ठ 13, 1937

No.1159]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2015/JYAISTHA 13, 1937

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2015

**का.आ. 1459(अ).**—केंद्रीय सरकार, गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 फरवरी, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 85(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः—

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 19, 20, 21 एवं 22 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

19	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश	सदस्य
20	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
21	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य
22	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), उत्तराखंड सरकार	सदस्य

उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

[सं. एन. 24026/01/2004-पीएनडीटी]

डॉ. राकेश कुमार, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण:** भारत के राजपत्र में मूल अधिसूचना का.आ. 85(अ) दिनांक 5 फरवरी, 1997 को प्रकाशित हुयी थी जिसमें बाद में संख्या का.आ. 160(अ) दिनांक 28 फरवरी, 1998 को संशोधन किया गया था तथा आगे संख्या का.आ. 694(अ) दिनांक 13 अगस्त, 1998; का.आ. 61(अ) दिनांक 14 जनवरी 2000; का.आ. 114(अ) दिनांक 1 फरवरी, 2000; का.आ. 349(अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2001; का.आ. 931(अ) दिनांक 19 सितम्बर, 2001; का.आ. 590(अ) दिनांक 31 मई, 2002; का.आ. 1191(अ) दिनांक 12 नवम्बर, 2002; का.आ. 703(अ) दिनांक 18 जून, 2003; का.आ. 1458(अ) दिनांक 23 दिसम्बर, 2003; का.आ. 99(अ) दिनांक 20 जनवरी, 2004; का.आ. 367(अ) दिनांक 17 मार्च, 2004; का.आ. 937(अ) दिनांक 19 अगस्त, 2004; का.आ. 1008(अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2004; का.आ. 56(अ) दिनांक 19 जनवरी, 2006; का.आ. 199(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006; का.आ. 200(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006; का.आ. 1854(अ) दिनांक 30 अक्टूबर, 2006; का.आ. 1506(अ) दिनांक 20 जून, 2008; का.आ. 130(अ) दिनांक 6 जनवरी, 2009; का.आ. 2143(अ) दिनांक 20 अगस्त, 2009; का.आ. 779(अ) दिनांक 28 अप्रैल, 2011; का.आ. 85(अ) दिनांक 11 जनवरी, 2012; का.आ. 1272(अ) दिनांक 25 मई, 2012; का.आ. 2613 (अ) दिनांक 25 अक्टूबर, 2012; का.आ. 2825 (अ) दिनांक 22 नवम्बर, 2012; का.आ. 43 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 2012; का.आ. 1351 (अ) दिनांक 21 मई, 2013; का.आ. 306(अ) दिनांक 31 जनवरी, 2014; का.आ. 2520 (अ) दिनांक 26 सितंबर, 2014; का.आ. 2587(अ) दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 के माध्यम से किए गए।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2015

**S.O. 1459(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification No. S.O. 85 (E), dated 5<sup>th</sup> February, 1997, issued by Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:

2. In the said notification, for serial numbers 19, 20, 21 and 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

19	Secretary (Health & Family Welfare), UT of Andaman & Nicobar Island	Member
20	Principal Secretary (Health & Family Welfare), Government of Andhra Pradesh	Member

21	Principal Secretary (Health & Family Welfare), Government of West Bengal	Member
22	Principal Secretary (Health & Family Welfare), Government of Uttarakhand	Member

Term of office of the above members shall be for a period of one year commencing from the date of this notification or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. N. 24026/1/2004-PNDT]

Dr. RAKESH KUMAR, Jt. Secy.

**Footnote:** The Principal Notification was published in the Gazette of India, *vide* no. S.O. 85(E), dated 5<sup>th</sup> February, 1997 and amended *vide* No. S.O.160 (E) dated 28<sup>th</sup> February, 1998 and further amended *vide* Nos. S.O. 694(E) dated 13<sup>th</sup> August, 1998, S.O. 61(E) dated 14<sup>th</sup> January, 2000; S.O.114(E) dated 1<sup>st</sup> February, 2000; S.O.349(E) dated 20<sup>th</sup> April, 2001; S.O.931(E) dated 19<sup>th</sup> September, 2001; S.O.590(E) dated 31<sup>st</sup> May, 2002; S.O.1191 (E) dated 12<sup>th</sup> November, 2002; S.O.703(E) dated 18<sup>th</sup> June, 2003; S.O.1458(E) dated 23<sup>rd</sup> December, 2003; S.O.99(E) dated 20<sup>th</sup> January, 2004; S.O.367(E) dated 17<sup>th</sup> March, 2004; S.O.937(E) dated 19<sup>th</sup> August, 2004; S.O.1008(E) dated 16<sup>th</sup> September, 2004; S.O.56(E) dated 19<sup>th</sup> January, 2006; S.O.199(E) dated 10<sup>th</sup> February, 2006; S.O.200(E) dated 10<sup>th</sup> February, 2006; S.O. 1854(E) dated 30<sup>th</sup> October, 2006; S.O.1506(E) dated 20<sup>th</sup> June, 2008; S.O.130(E) dated 6<sup>th</sup> January, 2009; S.O.2143(E) dated 20<sup>th</sup> August, 2009; S.O.779(E) dated 28<sup>th</sup> April, 2011; S.O.85(E) dated 11<sup>th</sup> January, 2012; S.O.1272(E) dated 25<sup>th</sup> May, 2012; S.O. 2613(E) dated 25<sup>th</sup> October, 2012; S.O. 2825(E) dated 22<sup>nd</sup> November, 2012; S.O. 43(E) dated 31<sup>st</sup> December, 2012 and S.O.1351(E) dated 21<sup>st</sup> May, 2013; S.O. 306(E) dated 31<sup>st</sup> January, 2014; S.O. 2520(E) dated 26<sup>th</sup> September, 2014 and S.O. 2587(E) dated 2<sup>nd</sup> October, 2014.